



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17—अप्रैल 23, 2010 (चैत्र 27, 1932)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17—APRIL 23, 2010 (CHAITRA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

वित्त मंत्रालय

इंडियन बैंक

चेन्नै, दिनांक 12 मार्च 2010

एस. ओ.—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण)
अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19, जो धारा 12 की
उप धारा (2) के साथ पठित है, के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों के
प्रयोग में इंडियन बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ
परामर्श के बाद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ इंडियन बैंक
(कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 में आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित विनियमन किया है, यथा :--

1. (1) ये विनियमन इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन)
विनियमन 2009 कहे जाएंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से ही यह प्रभाव
में आएंगे।

2. इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (इसके आगे कथित
विनियमन नाम से संदर्भित) के विनियम 2 में खंड (ओ) के उप खंड

(सी) में निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“(सी) पुत्र या पुत्री जिसमें विधवा या तलाकशुदा पुत्री शामिल है,
जब तक वे पच्चीस साल के होते हैं या विवाह या पुनर्विवाह
कर लेते हैं जो भी पहले हो, और इसमें विधिक रूप से दत्तक
पुत्र या पुत्री भी शामिल हैं।”

3. कथित विनियमनों में उप विनियम (3) के बाद विनियम 8 में
निम्नलिखित उप-विनियम लगा दिया जाएगा यथा:--

“(4) न्यासी की नियुक्ति की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी तथा
बैंक ऐसे न्यासी को भी पुनः नियुक्त कर सकता है जिन्होंने
अपनी सेवावधि की पूर्ति कर ली है, बशर्ते कि किसी भी
न्यासी को दो सेवा काल से अधिक अवधि के लिए नियुक्त
नहीं किया जाए।”

4. कथित विनियमनों में, विनियम 9 में निम्नलिखित परंतुक को लगा
दिया जाएगा, यथा

“बशर्ते कि ऐसे सभी निदेश लिखित रूप से दिये जाएंगे और
प्रयोजन या उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करेंगे।”

5. कथित विनियमनों में, विनियम 10 के उप विनियम (2) में प्रारंभिक अंश में " प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर" की जगह में "बैंक के तुलन पत्र के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के अंदर" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

बी. श्रीनिवासन
महा प्रबंधक (एच. एवं एम.)

फुट नोट :- मूल विनियमन, भारत के राजपत्र में 29.09.1995 को प्रकाशित किये गये थे तथा उसके पश्चात् किये गये संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्या में निम्नानुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये :-

अधिसूचना संख्या	दिनांक
25	16.03.2000
26	29.06.2002
3	11.01.2003

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली _____ 2009

संख्या ए-12(11)/11/2009-चि.4 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम एतद्द्वारा दन्त्य शिक्षण संकाय की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

- (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (दन्त्य शिक्षण संकाय पद) भर्ती विनियम, 2009 कहे जायेंगे।
- (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोज्यता :

ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. जिन पदों के संबंध में सीधी भर्ती विहित की गई है उनके संबंध में चयन बोर्ड का गठन, चयन की प्रक्रिया आदि :

(1) चयन बोर्ड :

- (i) चयन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :-
- (क) भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव स्तर का अंशकालिक अध्यक्ष जिसे सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय या महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व-अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा ।
- (ख) दो दन्त्य विशेषज्ञ जिन्हें महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित विशेषज्ञों के पैनल में से, चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा ।
- (ग) नई दिल्ली में चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागीय प्रतिनिधि होगा तथा अन्य राज्यों के मामलों में संबंधित राज्य का वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त अथवा राज्य चिकित्सा आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि होगा । इन अधिकारियों के किसी कारणवश उपलब्ध न होने की स्थिति में महानिदेशक विभागीय प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है ।
- (i) अंशकालिक अध्यक्ष की पदावधि सामान्यतः चयन बोर्ड के गठन की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी । परन्तु, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा उनकी पदावधि कम अथवा बढ़ाई जा सकती है ।
- (ii) अंशकालिक अध्यक्ष और दन्त्य विशेषज्ञ, समय-समय पर महानिदेशक द्वारा सरकार द्वारा विहित दरों को ध्यान में रखते हुए, नियत दरों पर यात्रा भत्ता, बैठक शुल्क आदि के हकदार होंगे ।
- (2) चयन की प्रक्रिया तथा रीति :
- (क) अनुसूची में शामिल पदों पर सीधी भर्ती, साधारणतः उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी ।

यदि भर्ती हेतु भिन्न तरीका अंगीकृत करना आवश्यक हो जाता है तो अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात महानिदेशक द्वारा इसे अंगीकृत किया जा सकेगा । तथापि, भर्ती की

रीति विज्ञापन में अधिसूचित कर दी जाने के पश्चात कोई अनुवर्ती परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

- (ख) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या का निर्णय अध्यक्ष, चयन बोर्ड द्वारा रिक्तियों की संख्या और विहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (ग) आयु, अर्हता, अनुभव आदि की विहित अपेक्षाएं पूरा करने मात्र से ही आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने अथवा विज्ञापित पद पर किसी प्रकार के दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (घ) आवेदनों के संबंध में विज्ञापन जारी करने तथा अध्यक्ष, चयन बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवेदनों के प्रक्रमण संबंधी समस्त कार्य महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (ङ.) चयन बोर्ड को आवश्यक सचिवीय सहायता, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. निरर्हता :

ऐसा कोई व्यक्ति :-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा
- (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

7. ढील देने की शक्ति :

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं ।

8. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है ।

(डॉ. सी.एस. केदार)
महानिदेशक

अनुसूची

पद का नाम	पद की संरक्षा	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
शिक्षण संकाय (दन्त्य) उप संवर्ग पद: (1) प्रोफेसर	अभी सृजित किया जाना है	ग्रुप 'क' गैर-लिपिक वर्गीय	10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 तथा प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन	हाँ	50 वर्ष से अनधिक (कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व काश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीती जिला और चम्पा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख)	(i) दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग-I अथवा भाग-II में शामिल अर्हता (ख) दन्त्य परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए (ii) स्नातकोत्तर अर्हकता अर्थात् दंत शल्य चिकित्सा निष्णात (एम.डी.एस.) या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अनुभव दन्त्य शल्य चिकित्सा निष्णात (एम.डी.एस.) की अर्हता डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञ के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण और /या अनुसंधान में 14 वर्षों का अनुभव टिप्पणी-1 अभ्यर्थी के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता में ढील दी जा सकती है। टिप्पणी-2 अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हता में ढील दी जा सकती है। यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति-क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	किन परिस्थितियों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
9	10	11	12	13	14
नहीं	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती के लिए)	पदोन्नति द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा 50% किसी/एक या दोनों के न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति/आमेलन या ठेके के द्वारा टिप्पणी:- क.रा.बी.निगम में पहली बार भर्ती के लिए प्रतिनियुक्ति आमेलन और/या ठेके पर नियुक्ति को भर्ती की अन्य तारीखों से वरीयता दी जा सकती है।	पदोन्नति द्वारा 8,900/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में सात वर्ष की नियमित सेवा वाले अपर प्रोफेसर चिकित्सा प्रमाण-पत्र और अध्ययन प्रयोजन के अलावा अन्य कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय/राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अन्तर्गत अधिकारी जो (1) सदृश पदधारी और कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखने वाले या (2) 8,900/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में अपर प्रोफेसर के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद ग्रेड में 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी:1 इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित दूसरे संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पदोन्नति पर विचारार्थ (ग्रुप 'क' की विभागीय पदोन्नति समिति) 1. सचिव (श्रम मंत्रालय भारत सरकार) अध्यक्ष 2. महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, सदस्य स्थायीकरण पर विचारार्थ 1. सचिव (श्रम मंत्रालय भारत सरकार) अध्यक्ष 2. महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
							कि इन समुदाय के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होगी।
(2) अपर प्रोफेसर	अभा सृजित की जानी हैं।	ग्रुप क गैर-लिपिक वर्गीय	8,900/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 तथा प्रैक्टिसवन्दी भत्ता	चयन	हा	50वर्ष से अनाधिक (कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने का निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व काश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौत तथा स्पीती जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)	<p>(i) व (ii) वहां जो प्रोफेसर के लिए हैं अनुभव</p> <p>दन्त्य शल्य चिकित्सा निष्णात (एम.डी.एस.) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता डिग्री प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण और/या अनुसंधान का दस वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताओं में ढील दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव संबंधी अर्हताओं में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ढील दी जा सकती है।</p>

9	10	11	12	13	14
			<p>टिप्पणी:2 पदोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p>		
नहीं	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती के लिए)	<p>पदोन्नति द्वारा - 75% सीधी भर्ती द्वारा - 25% किसी एक या दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर स्थानांतरण द्वारा या ठेके पर</p> <p>टिप्पणी: क.रा.बी. निगम में पहली बार भर्ती के लिए अन्य तारीखों से भर्ती के प्रतिनियुक्ति/ आमेलन या ठेके पर नियुक्ति को वरीयता दी जा सकती है।</p>	<p>पदोन्नति द्वारा 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 के वेतनमान में सह प्रोफेसर के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले सह प्रोफेसर</p> <p>चिकित्सा प्रमाण पत्र और अध्ययन प्रयोजन के अलावा अन्य कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी,</p> <p>को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर</p> <p>स्थानांतरण केन्द्रीय /राज्य सरकार सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अन्तर्गत अधिकारी : (i) कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विहित अर्हताएं और विहित अनुभव रखने वाले सदृश पदधारी</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) 8,700/-रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4 तथा उसमें नियुक्ति के बाद चार वर्ष की नियमित सेवा वाले सह प्रोफेसर</p> <p>टिप्पणी1: इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित दूसरे बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी2: पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p>	<p>पदोन्नति पर</p> <p>विचारार्थ (ग्रुप 'क' की विभागीय पदोन्नति समिति) 1. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम, अध्यक्ष 2. चिकित्सा आयुक्त क.रा.बी. निगम सदस्य</p> <p>स्थायीकरण पर</p> <p>विचारार्थ 1. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम, अध्यक्ष 2. चिकित्सा आयुक्त क.रा.बी. निगम सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
(3) सह प्रोफेसर	अभी सृजित की जानी हैं।	ग्रुप 'क' गैर-लिपिक वर्गीय	8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-4	गैर-चयनित	हैं	50 वर्ष से अनधिक (कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व काश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्पा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के लिए नियत अंतिम तारीख)	<p>(i) व (ii) वही जो प्रोफेसर (मेडिकल) के लिए हैं</p> <p>अनुभव:- दंत शल्य चिकित्सा (एम.डी.एस.) डिग्री अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में छः वर्ष का शिक्षण और/ या अनुसंधान अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी के चिन्तेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव संबंधी अर्हताएं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर शिथिलनीय हैं।</p>


9	10	11	12	13	14
नहीं	एक वर्ष	<p>पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर स्थानांतरण द्वारा या ठेके के माध्यम से</p> <p>टिप्पणी: क.रा.बी.निगम में पहली बार भर्ती के लिए प्रतिनियुक्ति/ आमेलन और/ या ठेके पर नियुक्ति को भर्ती के अन्य तरीकों से वरीयता दी जाएगी।</p>	<p>पदोन्नति द्वारा 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 तथा सहायक प्रोफेसर के ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक प्रोफेसर</p> <p>*चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा अध्ययन के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य कारणों के लिए ली गई असाधारण छुट्टी, को अर्हता सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्र /राज्य सरकार की सेवा /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन अधिकारी (i) सदृश पदधारी तथा कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले अथवा (ii) पद पर नियुक्ति के बाद चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में सहायक प्रोफेसर</p> <p>टिप्पणी 1: इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में दूसरे संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी 2: पदोन्नति के लिए अधिकारियों की पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड में विहित अर्हता सेवा पूरी करने के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p>	<p>स्थायीकरण तथा पदोन्नति पर विचारार्थ (ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति) 1. चिकित्सा आयुक्त क.रा.बी.निगम अध्यक्ष 2. निदेशक (चिकि.) दिल्ली क.रा.बी.निगम सदस्य 3. अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) क.रा.बी.निगम सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
(4) सहायक प्रोफेसर	अभी सृजित की जानी हैं।	ग्रुप 'क' गैर-लिपिक वर्गीय	6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 तथा प्रैक्टिसबंदी भत्ता (केवल मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए)	लागू नहीं	हाँ	50 वर्ष से अनधिक (कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व काश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप प्रभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख)	<p>(i) व (ii) वही जो प्रोफेसर के लिए हैं</p> <p>अनुभव:- दंत शल्य चिकित्सा निष्णात (एम.डी.एस.) डिग्री अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में 3 वर्ष का शिक्षण और/ या अनुसंधान अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं।</p> <p>टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव संबंधी अर्हताएं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर शिथिलनीय हैं।</p>

9	10	11	12	13	14
नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेदन पर स्थानांतरण द्वारा या ठेके के माध्यम से टिप्पणी: क.रा.बी.निगम में पहली बार भर्ती के लिए प्रतिनियुक्ति/आमेदन और/या ठेके पर नियुक्ति को सीधी भर्ती से वरीयता दी जाएगी।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधीन अधिकारी (i) सदृश पदधारी तथा सीधी भर्ती के समान अर्हताएं तथा अनुभव रखने वाले। टिप्पणी1: इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रातनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी2: पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार के लिए) 1. चिकित्सा आयुक्त क.रा.बी.निगम अध्यक्ष 2. निदेशक (चिकि.) दिल्ली क.रा.बी.निगम सदस्य 3. अपर आयुक्त (चिकित्सा प्रशासन) क.रा.बी.निगम सदस्य	लागू नहीं

अधिनियम ४०

परिचालन द्वारा विद्या परिषद् के प्रस्तावानुसार	परिचालन द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनानुसार
विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत, धारा २७(२) के साथ पढ़ी जाय धारा २६(के) एवं अधिनियम १५(१)	विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत, धारा २७(२) के साथ पढ़ी जाय धारा २६(के) एवं अधिनियम १५(१)
कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् विद्यालयीन विद्या परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालयीन वर्तमान अधिनियमों के परिवर्धित नियम के तहत अध्ययन शाला एवं अध्ययन विभागों की संस्थापना हेतु नवीन अधिनियम प्रस्तुत करता है	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् विद्यालयीन विद्या परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालयीन वर्तमान अधिनियमों के परिवर्धित नियम के तहत अध्ययन शाला एवं अध्ययन विभागों की संस्थापना हेतु नवीन अधिनियम प्रस्तुत करता है
परिवर्धित अधिनियम ४० (अधिनियम ३९ के पश्चात्)	परिवर्धित अधिनियम ४० (अधिनियम ३९ के पश्चात्)
४० वर्तमान में निम्नलिखित अध्ययन शाला एवं विभाग, विश्वविद्यालय में संस्थित हैं ।	४० वर्तमान में निम्नलिखित अध्ययन शाला एवं विभाग, विश्वविद्यालय में संस्थित हैं ।
<u>अध्ययन शालाएँ</u>	<u>अध्ययन शालाएँ</u>
१ स्नातक अध्ययन शाला	१ स्नातक अध्ययन शाला
२ मानविकी एवं भाषा अध्ययन शाला	२ मानविकी एवं भाषा अध्ययन शाला
३ माध्यम अध्ययन शाला	३ माध्यम अध्ययन शाला
४ चाक्षुष एवं प्रदर्शनकला अध्ययन शाला	४ चाक्षुष एवं प्रदर्शनकला अध्ययन शाला
५ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शाला	५ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शाला
६ सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान अध्ययन शाला	६ सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान अध्ययन शाला
७ व्यापार अध्ययन शाला	७ व्यापार अध्ययन शाला
८ विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन शाला	८ विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन शाला
९ शिक्षा एवं प्रशिक्षण अध्ययन शाला	९ शिक्षा एवं प्रशिक्षण अध्ययन शाला
१० रसायनशास्त्र अध्ययन शाला	१० रसायनशास्त्र अध्ययन शाला
१२ जीव विज्ञान अध्ययन शाला	१२ जीव विज्ञान अध्ययन शाला
१३ भू विज्ञान अध्ययन शाला	१३ भू विज्ञान अध्ययन शाला
१४ परिसर विज्ञान अध्ययन शाला	१४ परिसर विज्ञान अध्ययन शाला
१५ संगणक विज्ञान अध्ययन शाला	१५ संगणक विज्ञान अध्ययन शाला
१६ अभियांत्रिकी अध्ययन शाला	१६ अभियांत्रिकी अध्ययन शाला
एवं तद्विषयक अन्य शालाएँ जो विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर संस्थापित किए जाएंगे	एवं तद्विषयक अन्य शालाएँ जो विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर संस्थापित किए जाएंगे



 SPECIAL OFFICER
 Central University of Karnataka
 GULBARGA-585106.

अध्ययन के विभाग	अध्ययन के विभाग
१ अंग्रेजी अध्ययन विभाग	१ अंग्रेजी अध्ययन विभाग
२ विदेशी भाषा अध्ययन विभाग	२ विदेशी भाषा अध्ययन विभाग
३ हिन्दी अध्ययन विभाग	३ हिन्दी अध्ययन विभाग
४ उर्दू अध्ययन विभाग	४ उर्दू अध्ययन विभाग
५ कन्नड अध्ययन विभाग	५ कन्नड अध्ययन विभाग
६ अनुवाद अध्ययन विभाग	६ अनुवाद अध्ययन विभाग
७ पत्रकारिता अध्ययन विभाग	७ पत्रकारिता अध्ययन विभाग
८ संचारण एवं प्रसारण अध्ययन विभाग	८ संचारण एवं प्रसारण अध्ययन विभाग
९ रंगमंच एवं प्रदर्शन कला अध्ययन विभाग	९ रंगमंच एवं प्रदर्शन कला अध्ययन विभाग
१० चलचित्र अध्ययन विभाग	१० चलचित्र अध्ययन विभाग
११ दक्षिण एशियायी अध्ययन विभाग	११ दक्षिण एशियायी अध्ययन विभाग
१२ युरोपियन अध्ययन विभाग	१२ युरोपियन अध्ययन विभाग
१३ मध्य एशियायी अध्ययन विभाग	१३ मध्य एशियायी अध्ययन विभाग
१४ अमेरिकन अध्ययन विभाग	१४ अमेरिकन अध्ययन विभाग
१५ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन विभाग	१५ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन विभाग
१६ अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन विभाग	१६ अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन विभाग
१७ इतिहास अध्ययन विभाग	१७ इतिहास अध्ययन विभाग
१८ मनोविज्ञान अध्ययन विभाग	१८ मनोविज्ञान अध्ययन विभाग
१९ समाज कार्य अध्ययन विभाग	१९ समाज कार्य अध्ययन विभाग
२० समाज व्यवस्था अध्ययन विभाग	२० समाज व्यवस्था अध्ययन विभाग
२१ मानव-शास्त्र अध्ययन विभाग	२१ मानव-शास्त्र अध्ययन विभाग
२२ अर्थशास्त्र एवं परियोजन अध्ययन विभाग	२२ अर्थशास्त्र एवं परियोजन अध्ययन विभाग
२३ वाणिज्य अध्ययन विभाग	२३ वाणिज्य अध्ययन विभाग
२४ व्यवसाय अध्ययन विभाग	२४ व्यवसाय अध्ययन विभाग
२५ विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन विभाग	२५ विधिक एवं न्यायशास्त्र अध्ययन विभाग
२६ मानवाधिकार अध्ययन विभाग	२६ मानवाधिकार अध्ययन विभाग
२७ पर्यावरण नियम अध्ययन विभाग	२७ पर्यावरण नियम अध्ययन विभाग
२८ शिक्षा अध्ययन विभाग	२८ शिक्षा अध्ययन विभाग
२९ वयस्क शिक्षा अध्ययन विभाग	२९ वयस्क शिक्षा अध्ययन विभाग
३० अनौपचारिक शिक्षा अध्ययन विभाग	३० अनौपचारिक शिक्षा अध्ययन विभाग

Channasew
SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106.

३१	रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग	३१	रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग
३२	गणित अध्ययन विभाग	३२	गणित अध्ययन विभाग
३३	भौतशास्त्र अध्ययन विभाग	३३	भौतशास्त्र अध्ययन विभाग
३४	नॉनोविज्ञान अध्ययन विभाग	३४	नॉनोविज्ञान अध्ययन विभाग
३५	आण्विक जीवविज्ञान अध्ययन विभाग	३५	आण्विक जीवविज्ञान अध्ययन विभाग
३६	जीव तंत्रज्ञान अध्ययन विभाग	३६	जीव तंत्रज्ञान अध्ययन विभाग
३७	जीव सूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग	३७	जीव सूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग
३८	जीव रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग	३८	जीव रसायनशास्त्र अध्ययन विभाग
३९	सस्यशास्त्र अध्ययन विभाग	३९	सस्यशास्त्र अध्ययन विभाग
४०	प्राणीशास्त्र अध्ययन विभाग	४०	प्राणीशास्त्र अध्ययन विभाग
४१	आनुवंशिकी अध्ययन विभाग	४१	आनुवंशिकी अध्ययन विभाग
४२	भूगर्भशास्त्र अध्ययन विभाग	४२	भूगर्भशास्त्र अध्ययन विभाग
४३	भूगोलशास्त्र अध्ययन विभाग	४३	भूगोलशास्त्र अध्ययन विभाग
४४	भूरसायनशास्त्र एवं भूभौतशास्त्र अध्ययन विभाग	४४	भूरसायनशास्त्र एवं भूभौतशास्त्र अध्ययन विभाग
४५	भूसूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग	४५	भूसूचनाशास्त्र अध्ययन विभाग
४६	परिस्थितिशास्त्र अध्ययन विभाग	४६	परिस्थितिशास्त्र अध्ययन विभाग
४७	परिसरशास्त्र अध्ययन विभाग	४७	परिसरशास्त्र अध्ययन विभाग
४८	गणकशास्त्र अध्ययन विभाग	४८	गणकशास्त्र अध्ययन विभाग
४९	कृत्रिम गुप्तचरशास्त्र अध्ययन विभाग	४९	कृत्रिम गुप्तचरशास्त्र अध्ययन विभाग
५०	नागरिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५०	नागरिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५१	रसायनिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५१	रसायनिक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५२	भौतिकीय अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५२	भौतिकीय अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५३	विद्युदणु अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५३	विद्युदणु अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५४	संचारण अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५४	संचारण अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५५	संगणक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५५	संगणक अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५६	जीव अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५६	जीव अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
५७	जीवचिकित्सा अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग	५७	जीवचिकित्सा अभियान्त्रिकशास्त्र अध्ययन विभाग
एवं तद्विषयक अन्य विभाग जो समय समय पर विश्विद्यालय द्वारा संस्थापित किए जाएंगे		एवं तद्विषयक अन्य विभाग जो समय समय पर विश्विद्यालय द्वारा संस्थापित किए जाएंगे	

भारत सरकाराधीन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चशिक्षा विभाग नई दिल्ली, ने, पत्र संख्या एफ.४२-२६/२००९-डेस्क (यू), दिनांक ०२.०३.२०१०, द्वारा, उपरोक्त अधिनियम के प्रति निरीक्षक की स्वीकृति संप्रेषित की है।


SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106,

MINISTRY OF FINANCE
INDIAN BANK

Chennai, the 12th March 2010

S.O:- In exercise of the powers conferred by Section 19, read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Indian Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, (hereinafter referred as the said Regulation), in Regulation 2, in Clause (o), for Sub-clause (c), the following Sub-clause shall be substituted, namely:-

“(c) son or daughter including widow or divorced daughter till he or she attains the age of twenty-five years or upto his or her marriage or re-marriage, whichever is earlier including such son or daughter adopted legally.”
3. In the said Regulations, in Regulation 8 after Sub-regulation (3), the following Sub-regulation shall be inserted namely:-

“(4) The term of appointment of Trustee shall be for a period of three years and the Bank may re-appoint a Trustee who has already completed his term; provided that no Trustee shall be appointed for more than two terms.”
4. In the said Regulations, in Regulation 9, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective.”
5. In the said Regulations, Regulation 10, in Sub-regulation (2), in the opening portion for the words “Within one hundred and eighty days from the closing of each financial year”, the words “Within sixty days from the date of publication of the Balance Sheet of the Bank” shall be substituted.

V. Srinivasan
General Manager (H&M)

Footnote: The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 and subsequent amendments vide notification no. published in the Gazette of India as under:-

<u>Notification No.</u>	<u>Date</u>
25	16.03.2000
26	29.06.2002
3	11.01.2003

Employees' State Insurance Corporation

New Delhi, the _____ 2009

No. A.12 (11)/11/2009-Med.-IV. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the Dental Teaching Faculty namely:-

1. Short title and commencement: (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Dental Teaching Faculty Posts), Recruitment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application: - These regulations shall apply to the post specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of post, classification and scale of pay:- The number of the said post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these Regulations.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and others matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Composition of Selection Board, procedure of Selection etc. in respect of post for which direct recruitment is prescribed:

(1) **Selection Board:**

(i) The selection Board shall consist of:-

(a) A part-time Chairman of the status of Secretary or Additional Secretary to the Government of India, who may be appointed by Secretary, Ministry of Labour & Employment or the Director General, Employees' State Insurance Corporation, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(b) Two Dental experts who may be chosen by the Chairman, Selection Board from the panel of experts maintained for the purpose by the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

(c) The Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation will be the departmental representative in New Delhi and in case of other States, the Senior State Medical Commissioner or State Medical Commissioner of the respective States will be departmental representatives. In case these officers are not available for some reason, then the Director General can nominate some other officer as the departmental representative.

(i) The term of office of the part-time Chairman shall ordinarily be one year from the date of constitution of the Selection Board. His term may, however, be curtailed or extended by the Director General, with the specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation.

(ii) The part-time Chairman and the Medical Experts shall be entitled to travelling allowances, sitting fees etc. at such rates as may be fixed by the Director

General from time to time, keeping in view the rates prescribed by the Government.

(2) Procedure and manner of Selection:-

- (a) Direct recruitment to the post included in the schedule shall ordinarily be made on the basis of an interview of eligible candidates.

In case, it becomes necessary to adopt a different mode of recruitment, the same may be adopted by the Director General after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation. However, once a mode of recruitment is notified in the advertisement, no change shall be made subsequently.

- (b) The number of candidates to be invited for interview shall be decided by the Chairman, Selection Board, keeping in view the number of vacancies and the number of applicants who satisfy the prescribed requirement.
- (c) Mere fulfillment of the prescribed requirement of age, qualification, experience etc. will not confer any right on the applicant to be called for interview or to any claim over the post advertised.
- (d) All work relating to issue of advertisement in respect of applications and processing of applications for submission to the Chairman, Selection Board will be handled by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.
- (e) The Selection Board will be provided necessary Secretarial assistant by the office of the Director General, Employees' State Insurance Corporation.

6. Disqualification - No person :-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

- 7. Power to relax:-** Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

- 8. Savings:-** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.


(Dr. C. S. Kedar)
Director General

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Teaching faculty (Dental) sub-cadre Posts : (1) Professor	Yet to be created	Group 'A' non ministerial	(PB-4, with G.P. of Rs 10,000) plus non practicing allowance	Selection	Yes	Not exceeding 50 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(i) (a) A qualification included in part I or Part II of the Schedule to the Dentists Act 1948 (16 of 1948) (b) Should be registered with a Dental Council. (ii) A postgraduate qualification e.g. MDS or a recognised qualification equivalent thereto. Experience: Fourteen years teaching and/or research experience in recognized institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MDS or qualification recognized equivalent thereto. Note 1: Qualifications relaxable at the discretion of competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes. If at any state of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill of the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
No	One year (for direct recruits only)	<p>By promotion – 50% By direct recruitment – 50% Failing any or both, by transfer on deputation/absorption or through contract.</p> <p>Note : For first time recruitment in ESI Corporation, the deputation/absorption and/or contract appointment may precede other modes of recruitment.</p>	<p>BY PROMOTION Additional Professor with *seven years regular service in PB-4 with G.P. of Rs 8900/- *Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service.</p> <p>TRANSFER ON DEPUTATION Officers under the Central / State Govt. service/ Public Sector Undertaking: (i) Holding analogous posts and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8 OR (ii) Additional Professors in PB-4 with G.P. of Rs 8900/- with seven years experience in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another EX-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 3 years.</p> <p>Note 2 : The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade.</p>	<p>FOR CONSIDERING PROMOTION (GROUP – A DPC)</p> <p>1. Secretary (Ministry of Labour (Government of India) – Chairman</p> <p>2. Director General, ESI Corporation – Member</p> <p>FOR CONSIDERING CONFIRMATION</p> <p>1. Secretary (Ministry of Labour (Government of India) – Chairman</p> <p>2. Director General, ESI Corporation – Member</p>	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
(2) Additional Professor	Yet to be created	Group 'A' non ministerial	PB-4 with G.P. of Rs 8900/- plus non practicing allowance	Selection	Yes	<p>Not exceeding 50 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants).</p> <p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p>(i) & (ii) same as for Professor</p> <p>Experience:</p> <p>Ten years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MDS or qualification recognized equivalent thereto.</p> <p>Note 1: Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority on recommendation of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience in respect of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate is relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>

9	10	11	12	13	14
No	One year (for direct recruits only)	<p>By promotion – 75%</p> <p>By direct recruitment – 25%</p> <p>Failing any or both, by transfer on deputation/absorption or through contract.</p> <p>Note : For first time recruitment in ESI Corporation, the deputation/absorption and/or contract appointment may precede other modes of recruitment.</p>	<p><u>BY PROMOTION</u></p> <p>Associate Professors in the pay scale of in PB-4 with G.P. of Rs 8700/- with *four years regular service in the grade of Associate Professor.</p> <p>*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service.</p> <p><u>TRANSFER ON DEPUTATION</u></p> <p>Officers under the Central /State Govt. service / Public Sector Undertaking:</p> <p>(i) Holding analogous posts and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8</p> <p>OR</p> <p>(ii) Associate Professors in PB-4 with G.P. of Rs 8700/- with four years regular service after appointment thereto.</p> <p>Note 1 :</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another EX-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 3 years.</p> <p>Note 2 :</p> <p>The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade.</p>	<p><u>FOR CONSIDERING PROMOTION (GROUP – A DPC)</u></p> <p>1. Director General, ESI Corporation – Chairman</p> <p>2. Medical Commissioner, ESI Corporation – Member</p> <p><u>FOR CONSIDERING CONFIRMATION</u></p> <p>1. Director General, ESI Corporation – Chairman</p> <p>2. Medical Commissioner, ESI Corporation – Member</p>	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
(3) Associate Professor	Yet to be created	Group A non ministerial	PB-4 with G.P. of Rs 8700/- plus non practicing allowance	Non Selection	Yes	<p>Not exceeding 50 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants).</p> <p>Note :</p> <p>The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p>(i) & (ii) same as for Professor (Medical)</p> <p>Experience:</p> <p>Six years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MDS. or qualification recognized equivalent thereto.</p> <p>Note 1: Qualifications with regard to experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority on recommendation of the Selection Committee in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience in respect of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate is relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>

9	10	11	12	13	14
No	One year	By promotion, failing which by direct recruitment failing both by transfer on deputation/absorption or through contract.	<p>BY PROMOTION</p> <p>Assistant Professors in the pay scale –PB-3 with G.P. of Rs 6600/- with *four years regular service in the grade of Assistant Professor.</p> <p>*Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical Certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service.</p> <p>TRANSFER ON DEPUTATION</p> <p>Officers under the Central /State Govt. service / Public Sector Undertaking:</p> <p>(i) Holding analogous posts and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8</p> <p>OR</p> <p>(ii) Assistant Professors in PB-3 with G.P. of Rs 6600/- with four years regular service after appointment thereto.</p> <p>Note 1 :</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another EX-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 3 years.</p> <p>Note 2 :</p> <p>The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade</p>	<p>FOR CONSIDERING CONFIRMATION AS WELL AS PROMOTION (GROUP 'A' DPC)</p> <p>1. Medical Commissioner ESI Corporation – Chairman</p> <p>2. Director (Medical) Delhi, ESI Corporation – Member</p> <p>3. Additional Commissioner (Medical Administration) ESI Corporation – Member</p>	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
(4) Assistant Professor	Yet to be created	Group 'A' non ministerial	PB-3 with G.P. of Rs 6600/- plus non practicing allowance (for medical candidates only)	Not applicable	Yes	<p>Not exceeding 50 years (relaxable upto 5 years for employees of the Employees' State Insurance Corporation and the Government servants).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p>(i) & (ii) same as for Professor</p> <p>Experience:</p> <p>Three years teaching and/or research experience in recognized Institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MDS or qualification recognized equivalent thereto.</p> <p>Note 1: Qualifications with regard experience are relaxable at the discretion of the Appointing Authority on recommendation of the Selection Committee in case candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience in respect of Scheduled Caste and the Scheduled Tribes candidate relaxable based on the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p>

9	10	11	12	13	14
No	One year	By direct recruitment failing which by transfer on deputation/absorption or through contract. Note : For first time recruitment in ESI Corporation, the deputation/absorption and/or contract appointment may precede direct recruitment.	TRANSFER ON DEPUTATION Officers under the Central /State Govt. service / Public Sector Undertaking: (i) Holding analogous posts and possessing same qualifications and experience as for direct recruitment. Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another EX-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the Central Government shall not exceed 3 years. Note 2 : The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Chairman 2. Director (Medical) Delhi, ESI Corporation -Member 3. Additional Commissioner (Medical Administration) Employees' State Insurance Corporation -Member	Not applicable

Statute 40

AS PROPOSED BY ACADEMIC COUNCIL BY CIRCULATION	AS APPROVED BY EXECUTIVE COUNCIL BY CIRCULATION
<p><i>Section 26(k) read with Section 27(2) and Statute 15(1) of the University Act</i></p> <p>The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for Establishment of Schools of Studies and Departments of Studies by way of addition to the existing Statutes of the University.</p> <p>Add Statute 40 (after Statute 39)</p> <p>40. The University shall have presently the following Schools of Studies and Departments:</p> <p><u>Schools of Studies</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. School of Undergraduate Studies 2. School of Humanities and Languages 3. School of Media Studies 4. School of Visual and Performing Arts 5. School of International Studies 6. School of Social and Behavioral Sciences 7. School of Business Studies 8. School of Legal Jurisprudence Studies 9. School of Education and Training 10. School of Chemical Sciences 11. School of Physical Sciences 12. School of Life Sciences 13. School of Earth Sciences 14. School of Environmental Science 15. School of Computer Science 16. School of Engineering 	<p><i>Section 26(k) read with Section 27(2) and Statute 15(1) of the University Act</i></p> <p>The Executive Council of Central University of Karnataka, on the proposal made by the Academic Council, hereby makes a new Statute providing for Establishment of Schools of Studies and Departments of Studies by way of addition to the existing Statutes of the University.</p> <p>Add Statute 40 (after Statute 39)</p> <p>40. The University shall have presently the following Schools of Studies and Departments:</p> <p><u>Schools of Studies</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. School of Undergraduate Studies 2. School of Humanities and Languages 3. School of Media Studies 4. School of Visual and Performing Arts 5. School of International Studies 6. School of Social and Behavioral Sciences 7. School of Business Studies 8. School of Legal Jurisprudence Studies 9. School of Education and Training 10. School of Chemical Sciences 11. School of Physical Sciences 12. School of Life Sciences 13. School of Earth Sciences 14. School of Environmental Science 15. School of Computer Science 16. School of Engineering

and such other Schools as may be established by the University from time to time.	and such other Schools as may be established by the University from time to time.
<u>Departments of studies</u>	<u>Departments of studies</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Department of English 2. Department of Foreign Languages 3. Department of Hindi 4. Department of Urdu 5. Department of Kannada 6. Department of Translation 7. Department of Journalism 8. Department of Communication & Broadcasting 9. Department of Theatre and Performing Arts 10. Department of Film Studies 11. Department of South Asian Studies 12. Department of European Studies 13. Department of Middle Asian Studies 14. Department of American Studies 15. Department of International Politics Studies 16. Department of International Relation Studies 17. Department of History 18. Department of Psychology 19. Department of Social Work 20. Department of Social Systems 21. Department of Anthropology 22. Department of Economic Studies and Planning 23. Department of Commerce 24. Department of Business Studies 25. Department of Legal Jurisprudence Studies 26. Department of Human Rights studies 27. Department of Environment Law 28. Department of Education 29. Department of Adult Education 30. Department of Non-Formal Education 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Department of English 2. Department of Foreign Languages 3. Department of Hindi 4. Department of Urdu 5. Department of Kannada 6. Department of Translation 7. Department of Journalism 8. Department of Communication & Broadcasting 9. Department of Theatre and Performing Arts 10. Department of Film Studies 11. Department of South Asian Studies 12. Department of European Studies 13. Department of Middle Asian Studies 14. Department of American Studies 15. Department of International Politics Studies 16. Department of International Relation Studies 17. Department of History 18. Department of Psychology 19. Department of Social Work 20. Department of Social Systems 21. Department of Anthropology 22. Department of Economic Studies and Planning 23. Department of Commerce 24. Department of Business Studies 25. Department of Legal Jurisprudence Studies 26. Department of Human Rights studies 27. Department of Environment Law 28. Department of Education 29. Department of Adult Education 30. Department of Non-Formal Education

Charanant
SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
CIVIL BARGA-585106

31. Department of Chemistry 32. Department of Mathematics 33. Department of Physics 34. Department of Nanosciences 35. Department of Molecular Biology 36. Department of Biotechnology 37. Department of Bio Informatics 38. Department of Bio Chemistry 39. Department of Botany 40. Department of Zoology 41. Department of Genetics 42. Department of Geology 43. Department of Geography 44. Department of Geochemistry and Geophysics 45. Department of Geoinformatics 46. Department of Ecological Studies 47. Department of Environmental Studies 48. Department of Computer Science 49. Department of Artificial Intelligence 50. Department of Civil Engineering 51. Department Of Chemical Engineering 52. Department of Mechanical Engineering 53. Department of Electronic Engineering 54. Department of Communication Engineering 55. Department of Computer Engineering 56. Department of Bio Engineering 57. Department of Bio Medical Engineering	31. Department of Chemistry 32. Department of Mathematics 33. Department of Physics 34. Department of Nanosciences 35. Department of Molecular Biology 36. Department of Biotechnology 37. Department of Bio Informatics 38. Department of Bio Chemistry 39. Department of Botany 40. Department of Zoology 41. Department of Genetics 42. Department of Geology 43. Department of Geography 44. Department of Geochemistry and Geophysics 45. Department of Geoinformatics 46. Department of Ecological Studies 47. Department of Environmental Studies 48. Department of Computer Science 49. Department of Artificial Intelligence 50. Department of Civil Engineering 51. Department Of Chemical Engineering 52. Department of Mechanical Engineering 53. Department of Electronic Engineering 54. Department of Communication Engineering 55. Department of Computer Engineering 56. Department of Bio Engineering 57. Department of Bio Medical Engineering
---	---

and such other departments as may be established by the University from time to time

and such other departments as may be established by the University from time to time

The Dept. of Higher Education, MHRD, Govt. of India, New Delhi, vide its letter No.F.42-26/2009-Desk(U) dated 02.03.2010 has communicated the assent of the Visitor to the above Statute.

Charan Kumar
SPECIAL OFFICER
Central University of Karnataka
GULBARGA-585106.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010